

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 सितंबर 2022

प्रश्न -1

पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई थी?

- A) पश्चिम बंगाल
- B) राजस्थान
- C) ओडिशा
- D) महाराष्ट्र

सही उत्तर: A

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (PNHZZP) को भारत में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है।

प्रश्न -2

सितंबर 2022 में जारी वित्त वर्ष 2023 के लिए फिच रेटिंग्स द्वारा भारत के लिए आर्थिक विकास का पूर्वानुमान क्या है?

- A) 7.0%
- B) 7.2%
- C) 7.3%
- D) 7.4%

सही उत्तर: A

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 23) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास के अनुमान को जून 2022 के 7.8 प्रतिशत के अनुमान से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 सितंबर 2022

प्रश्न -3

कांतार ब्रैंडज़ की मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरी थी?

- A) HDFC बैंक
- B) ICICI बैंक
- C) इंसोसिस
- D) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

सही उत्तर: D

भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों पर कांतार ब्रैंडज़ की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) 2022 में HDFC बैंक की जगह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, जो 2014 के बाद से नंबर एक स्थान पर है।

प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किस देश की उप-कप्तान क्रिकेटर रेचल हेन्स ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) न्यूजीलैंड
- C) दक्षिण अफ्रीका
- D) वेस्ट इंडीज

सही उत्तर: A

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज और उप-कप्तान रेचल हेन्स ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 सितंबर 2022

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन (SAFF) U-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता?

- A) नेपाल
- B) भारत
- C) बांग्लादेश
- D) अफगानिस्तान

सही उत्तर: B

भारतीय फुटबॉल टीम ने नेपाल को हराकर 2022 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन (SAFF) U-17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है।

प्रश्न -6

हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा CHHATA नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की गई थी?

- A) आंध्र प्रदेश
- B) गुजरात
- C) महाराष्ट्र
- D) ओडिशा

सही उत्तर: D

ओडिशा सरकार ने हाल ही में 'कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियलली फ्रॉम टैरेस टू एक्विफर (CHHATA)' नाम से एक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 सितंबर 2022

प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किस नदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के सबसे लंबे रबर बांध 'गयाजी बांध' का उद्घाटन किया है?

- A) फाल्गु नदी
- B) कर्मनासा नदी
- C) पूनपून नदी
- D) सोन नदी

सही उत्तर: A

गया में फाल्गु नदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में देश के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से कौन भारत में गैस की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता करेगा?

- A) जानकी बल्लभ
- B) किरीट एस. पारिख
- C) एम.बी.एन. राव
- D) वाई.एम. देवस्थली

सही उत्तर: B

तेल मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस. पारिख की अध्यक्षता वाली समिति "अंतिम उपभोक्ता को उचित मूल्य" का सुझाव देगी।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 सितंबर 2022

प्रश्न -9

हिमालय दिवस कब मनाया गया?

- A) 10 सितंबर
- B) 09 सितंबर
- C) 08 सितंबर
- D) 07 सितंबर

सही उत्तर: B

हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है।

प्रश्न -10

_____ जनजाति को हाल ही में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल किया गया था।

- A) धुरी
- B) गोंड
- C) नायक
- D) पथरी

सही उत्तर: B

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) सूची से अनुसूचित जनजाति (ST) सूची के तहत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।